



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2013/पौष 11, 1934

No. 05]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2013/PAUSA 11, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2013

का.आ. 5(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, झारखंड राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अर्जन अधिकारी, गिरिडीह, झारखंड को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : गिरीडीह

क्रम संख्या	मौजा का नाम	पुलिस स्टेशन का नाम नम्बर के साथ	प्लॉट नम्बर / सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मधवाडीह	डुमरी-192	1	0.1105
			2	0.0124
			8	0.0030
			76	0.0120
			77	0.1021
			80	0.1200
			81	0.0023
			83	0.1033
			84	0.0088
			85	0.0097
			86	0.1171
			99	0.0226
			93	0.0306
			91	0.0914
			90	0.1598
			116	0.0058
2.	भोलीडीह	डुमरी-193	36	0.2479
			32	0.0204
			33	0.0968
			34	0.0463
			35	0.0686
			31	0.0829
			28	0.0437
			29	0.0197
			27	0.0704
			26	0.0344
			23	0.1271
			24	0.0210
			22	0.2030
			415	0.0071

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	रामनगर	डुमरी-168	632	0.0109
			511	0.0182
			512	0.0174
			514	0.0978
4.	कोरियाडीह	डुमरी-169	1149	0.0194
			1143	0.0076
			1140	0.0327
			1139	0.0340
			1137	0.0381
			1138	0.0756
			1136	0.0065
			1125	0.0237
			1110	0.0074
			1088	0.0900
			1087	0.0151
			1090	0.0239
			1085	0.0299
			1017	0.0057
			1012	0.0197
			1010	0.0224
			1005	0.0020
			1004	0.0020
			1003	0.0027
			954	0.0056
			955	0.0192
			956	0.0732
			962	0.0057
			950	0.0257
			949	0.0110
			945	0.0387
			944	0.0250
			943	0.0172
			941	0.0113
			940	0.0414
			931	0.0087
			930	0.0359
			929	0.0042
			920	0.0027
			919	0.0078
			891	0.0106

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			889	0.0032
5.	बलथरिया	डुमरी-166	816	0.0798
			818	0.0261
			819	0.0203
			820	0.0500
			897	0.0049
			914	0.1106
			911	0.0100
			918	0.0040
			920	0.0062
			921	0.0054
			922	0.0076
			937	0.0045
6.	नगरी	डुमरी-164	1454	0.0177
			1455	0.0171
			1456	0.0440
			1457	0.0032
			1458	0.0678
			1468	0.0420
			1469	0.0142
			1467	0.0136
			1470	0.0555
			1471	0.0091
			1472	0.0048
			1425	0.0010
			1429	0.0172
			1430	0.0063
			1426	0.0150
			1428	0.0108
			1427	0.0210
			1420	0.0047
			1421	0.0003
			1419	0.0126
			1416	0.0025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1417	0.0033
			1418	0.0027
			1413	0.0008
			A	0.0240
			1352	0.0389
			1353	0.0068
			1354	0.0257
			1351	0.0291
			1350	0.0168
			1348	0.0190
			1349	0.0070
			1347	0.0396
			1360	0.0006
			1361	0.0082
			1362	0.0202
			1363	0.0052
			1364	0.0103
			1365	0.0043
			1366	0.0185
			1346	0.0089
			1344	0.0111
			1345	0.0078
			1343	0.0270
			1342	0.0082
			1340	0.0102
			1341	0.0487
			1331	0.0576
			1332	0.0116
			B	0.0181
			1335	0.0008
			1638	0.0071
			1639	0.0136
			1637	0.0054
			1636	0.0660

761/2013-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1640	0.0705
			1641	0.0590
			1642	0.0300
			1643	0.0380
			1644	0.0170
			1645	0.0446
			1688	0.1660
			1689	0.0850
			1690	0.0115
			1691	0.0340
			1692	0.0032
			1702	0.1588
			1705	0.0684
			1706	0.0077
7.	खेतको	डुमरी-157	169	0.0142
8.	लोहेडीह	डुमरी-156	475	0.0865
			473	0.2257
9.	करमातुंगरी	डुमरी-158	613	0.0071
			615	0.0145
			617	0.0187
			599	0.0047
			589	0.0063
			592	0.0048
			591	0.0170
			424	0.0055
			417	0.0235
			415	0.0159
			838	0.0099
			395	0.0029
			393	0.0066
			389	0.0069
			388	0.0323

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			253	0.1038
10.	बालुटुडा	डुमरी-124	818	0.1362
			1064	0.0751
			1061	0.0206
			1066	0.0340
			1068	0.0596
			1067	0.0285
			1069	0.0139
			1072	0.0509
			1077	0.0033
			1078	0.0019
			1079	0.0034
			1080	0.0019
			1085	0.0007
			1424	0.0020
			1425	0.0056
			1426	0.0034
			1427	0.0007
			1430	0.0082
			1431	0.0032
			1434	0.0019
			1432	0.0065
			1444	0.0187
			1445	0.0109
			1446	0.0106
			1447	0.0080
			1449	0.0303
			1450	0.0090
			1451	0.0074
			1452	0.0068
			1455	0.0393

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			293	0.0309
11.	रसुनादुरा	डुमरी-127	2145	0.1694
			2148	0.0035
			2149	0.0067
			2150	0.0101
			2151	0.0123
			2155	0.0115
			2156	0.0047
			2157	0.0318
			2251	0.0071
			2252	0.0599
			2253	0.0313
			2256	0.0329
			2258	0.0460
			2261	0.0393
			2262	0.0082
			2263	0.0035
			2272	0.0107
			2271	0.0437
12.	रंगामाटी	डुमरी-128	1561	0.0469
			1560	0.0077
			1567	0.0195
			1568	0.0171
			1569	0.0017
			1570	0.0393
			1572	0.0314
			1571	0.0080
			2148	0.0022
			2147	0.0164
			2146	0.0006
			2117	0.0021
			2094	0.0024
			2093	0.0013
			2092	0.0117

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2088	0.0247
			2087	0.0202
			2086	0.0180
			2081	0.0207
			2078	0.0457
			2039	0.0467
			1878	0.0055
			2037	0.0194
13.	तुइओ	डुमरी-110	12	0.6581
			9	0.1165
14.	पीपराडीह	डुमरी-104	64	0.0128
			62	0.0084
			63	0.0045
			65	0.0741
			66	0.0986
			96	0.0032
			95	0.0352
			97	0.0111
			94	0.0549
			98	0.0272
			89	0.0033
			99	0.0549
			100	0.0260
			101	0.0406
			102	0.0596
			103	0.0205
			104	0.0463
			106	0.0183
			105	0.0093
			731	0.3457
15.	चेगडो	डुमरी-96	1267	0.0005
			517	0.0315
			1269	0.0137
			715	0.0163

761/2013-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1270	0.0427
			1300	0.0185
			1302	0.0187
			1303	0.0177
			1304	0.0086
			1305	0.0266
			1316	0.0136
			1317	0.0053
			1318	0.0009
			133	0.0031
			468	0.0328
			467	0.0138
			465	0.0228
			461	0.0163
			459	0.0059
			515	0.0408
			516	0.0558
			517	0.0149
			1267	0.0126
16.	समदा	डुमरी-98	1021	0.1456
17.	खुरजियो	डुमरी-97	699	0.2743
			444	0.0782
			3	0.4130
			699	0.0210
18.	आसनबानी	बगोडर-87	25	0.1880
			25	1.2424
19.	चौधरीबांध	बगोडर-86	1332	0.0153
			1333	0.0091
			1334	0.0079
			1379	0.4037
			2	0.9407
			1200	0.1493
			1199	0.0276
			1210	0.1030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1206	0.0080
			1208	0.0062
			1211	0.0948
			1212	0.0298
			1213	0.0336
			1282	0.0668
			1318	0.1598
			1319	0.4829
			1330	0.0320
			1335	0.0119
			1331	0.0695
			1332	0.0049
20.	कोड़ाडीह	बगोडर-85	348	0.0431
			346	0.1652
			342	0.4858
			506	0.0403
			371	0.0771
			372	0.0042
			373	0.0423
			375	0.0292
			376	0.0087
			388	0.0065
			389	0.0492
			390	0.0798
			393	0.1610
			394	0.1182
			395	0.0059
			382	0.1113
21.	करमा	बगोडर-89	509	0.2334
			506	0.0175
			271	0.0020
			419	0.4315
22.	बान्धखारो	बगोडर-91	1879	0.0189
			1880	0.0257

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1881	0.0146
			1882	0.0773
			1887	0.0096
			1888	0.0120
			1889	0.0271
			2079	0.0347
			2080	0.0832
			2085	0.0785
			2086	0.0151
			2087	0.0037
			2088	0.0264
			2090	0.0092
			2091	0.0242
			2093	0.0172
			2092	0.0053
			2094	0.0146
			2095	0.0594
			2097	0.0396
			2100	0.0373
			220	0.0206
			219	0.0015
			218	0.0614
			217	0.0577
			216	0.0890
			210	0.0312
			214	0.0205
			213	0.0371
			211	0.0433
			199	0.0547
			193	0.0083
			192	0.0217
			191	0.0108
			189	0.0167
			188	0.0164

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			104	0.0541
			105	0.0143
			114	0.1010
			102	0.0885
			115	0.0136
			101	0.0048
			83	0.1272
			84	0.0040
			81	0.0085
			82	0.0088
			80	0.0457
			79	0.0122
23.	चीचाकी	बगोडर-54	118	0.0089
			120	0.0004
			165	0.0128
			325	0.0048
			40	0.0326
			45	0.0731
			77	0.0795
			93	0.0297
			94	0.0065
			95	0.0245
			100	0.0110
			99	0.0042
			101	0.0241
			103	0.0232
			105	0.0033
			106	0.0144
			111	0.0084
			112	0.0092
			114	0.0050
			115	0.0123
			116	0.0038

761/2013-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			118	0.0214
24.	पीपराडीह	बगोडर-50	1	0.1008
25.	गडेया	बगोडर-51	393	0.0685
			227	0.0122
			358	0.7326
			97	0.2813
			85	0.0017
			93	0.1251
26.	बरकीसरीया	बगोडर-44	4952	0.7398
			4435	0.0278
			4438	0.0163
			4439	0.0298
			4655	0.0208
			4458	0.0386
			4710	0.0504
			4661	0.5089
			4964	0.7231
			1321	0.0454
			2206	0.0349
			2207	0.0054
			2208	0.0250
			2122	0.1441
			2124	0.1106
			2114	0.0416
			2116	0.3020
			1346	0.0195
			1344	0.0168
			1342	0.0040
			1329	0.0012
			1328	0.0178
			1327	0.1613
			1326	0.0582
			1325	0.0099
			1324	0.0073
			1323	0.0099

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1313	0.0015
			1321	0.2663
27.	सरीयाखुर्द	बगोडर- 32	1663	0.0378
			1664	0.0610
			1665	0.0294
			1662	0.0065
			1666	0.0127
			1667	0.0165
			1668	0.0274
			1661	0.0039
			1669	0.0182
			1659	0.0011
			1670	0.0173
			1671	0.0332
			1672	0.0494
			1673	0.0177
			1674	0.0060
			1675	0.0087
			1676	0.0182
			1677	0.0177
			1678	0.0281
			1679	0.0291
			1681	0.0371
			1682	0.0258
			1683	0.0826
			1686	0.0111
			1687	0.0072
			1688	0.1946
			1712	0.0234
			1713	0.0394
			1711	0.0088
			1714	0.0808
			1741	0.0013
			1739	0.0016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1742	0.0357
			1743	0.0072
			1744	0.0103
			1745	0.0161
			1746	0.0280
			1747	0.0548
			1756	0.0174
			1757	0.0280
			1758	0.0694
			1759	0.0166
			1816	0.0405
			2036	0.0553
			589	0.0004
			54	0.6665
			3477	0.0069
			53	0.0308
28.	बरवाडीह	बगोडर-31	93	0.0437
			139	0.1079
			372	0.0501
			370	0.0543
			369	0.0160
			368	0.0294
			367	0.0230
			366	0.0193
			365	0.0225
			364	0.0133
			363	0.0670
			362	0.0281
			361	0.0373
			360	0.0293
			359	0.0184
			306	0.1177
			307	0.0081
			308	0.0048
			309	0.0124
			305	0.0934
			304	0.2507

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			303	0.0102
			302	0.0059

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]
ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2013

S.O. 5(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Jharkhand, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Giridih, Jharkhand in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for The Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Jharkhand.

Name of the District : Giridih

Serial Number	Name of the Mouza	Name of Police Station with Number	Plot Number / Survey Number	Area (In Hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Madhwadih	DUMRI-192	1	0.1105
			2	0.0124
			8	0.0030
			76	0.0120
			77	0.1021
			80	0.1200
			81	0.0023
			83	0.1033
			84	0.0088
			85	0.0097
			86	0.1171
			99	0.0226
			93	0.0306
			91	0.0914
			90	0.1598
2.	Bholidih	DUMRI-193	116	0.0058
			36	0.2479
			32	0.0204
			33	0.0968
			34	0.0463
			35	0.0686
			31	0.0829
			28	0.0437
			29	0.0197
			27	0.0704
			26	0.0344
			23	0.1271
			24	0.0210
			22	0.2030
			415	0.0071

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Ramnagar	DUMRI-168	632	0.0109
			511	0.0182
			512	0.0174
			514	0.0978
4.	Koriadih	DUMRI-169	1149	0.0194
			1143	0.0076
			1140	0.0327
			1139	0.0340
			1137	0.0381
			1138	0.0756
			1136	0.0065
			1125	0.0237
			1110	0.0074
			1088	0.0900
			1087	0.0151
			1090	0.0239
			1085	0.0299
			1017	0.0057
			1012	0.0197
			1010	0.0224
			1005	0.0020
			1004	0.0020
			1003	0.0027
			954	0.0056
			955	0.0192
			956	0.0732
			962	0.0057
			950	0.0257
			949	0.0110
			945	0.0387
			944	0.0250
			943	0.0172
			941	0.0113
			940	0.0414
			931	0.0087
			930	0.0359
			929	0.0042
			920	0.0027
			919	0.0078
			891	0.0106

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			889	0.0032
5.	Baltharia	DUMRI-166	816	0.0798
			818	0.0261
			819	0.0203
			820	0.0500
			897	0.0049
			914	0.1106
			911	0.0100
			918	0.0040
			920	0.0062
			921	0.0054
			922	0.0076
			937	0.0045
6.	Nagri	DUMRI-164	1454	0.0177
			1455	0.0171
			1456	0.0440
			1457	0.0032
			1458	0.0678
			1468	0.0420
			1469	0.0142
			1467	0.0136
			1470	0.0555
			1471	0.0091
			1472	0.0048
			1425	0.0010
			1429	0.0172
			1430	0.0063
			1426	0.0150
			1428	0.0108
			1427	0.0210
			1420	0.0047
			1421	0.0003
			1419	0.0126
			1416	0.0025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1417	0.0033
			1418	0.0027
			1413	0.0008
			A	0.0240
			1352	0.0389
			1353	0.0068
			1354	0.0257
			1351	0.0291
			1350	0.0168
			1348	0.0190
			1349	0.0070
			1347	0.0396
			1360	0.0006
			1361	0.0082
			1362	0.0202
			1363	0.0052
			1364	0.0103
			1365	0.0043
			1366	0.0185
			1346	0.0089
			1344	0.0111
			1345	0.0078
			1343	0.0270
			1342	0.0082
			1340	0.0102
			1341	0.0487
			1331	0.0576
			1332	0.0116
			B	0.0181
			1335	0.0008
			1638	0.0071
			1639	0.0136
			1637	0.0054
			1636	0.0660

761/2013-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1640	0.0705
			1641	0.0590
			1642	0.0300
			1643	0.0380
			1644	0.0170
			1645	0.0446
			1688	0.1660
			1689	0.0850
			1690	0.0115
			1691	0.0340
			1692	0.0032
			1702	0.1588
			1705	0.0684
			1706	0.0077
7.	Khetko	DUMRI-157	169	0.0142
8.	Lohedih	DUMRI-156	475	0.0865
			473	0.2257
9.	Karmatungri	DUMRI-158	613	0.0071
			615	0.0145
			617	0.0187
			599	0.0047
			589	0.0063
			592	0.0048
			591	0.0170
			424	0.0055
			417	0.0235
			415	0.0159
			838	0.0099
			395	0.0029
			393	0.0066
			389	0.0069
			388	0.0323

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			253	0.1038
10.	Balutunda	DUMRI-124	818	0.1362
			1064	0.0751
			1061	0.0206
			1066	0.0340
			1068	0.0596
			1067	0.0285
			1069	0.0139
			1072	0.0509
			1077	0.0033
			1078	0.0019
			1079	0.0034
			1080	0.0019
			1085	0.0007
			1424	0.0020
			1425	0.0056
			1426	0.0034
			1427	0.0007
			1430	0.0082
			1431	0.0032
			1434	0.0019
			1432	0.0065
			1444	0.0187
			1445	0.0109
			1446	0.0106
			1447	0.0080
			1449	0.0303
			1450	0.0090
			1451	0.0074
			1452	0.0068
			1455	0.0393

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			293	0.0309
11.	Rasunatura	DUMRI-127	2145	0.1694
			2148	0.0035
			2149	0.0067
			2150	0.0101
			2151	0.0123
			2155	0.0115
			2156	0.0047
			2157	0.0318
			2251	0.0071
			2252	0.0599
			2253	0.0313
			2256	0.0329
			2258	0.0460
			2261	0.0393
			2262	0.0082
			2263	0.0035
			2272	0.0107
			2271	0.0437
12.	Rangamati	DUMRI-128	1561	0.0469
			1560	0.0077
			1567	0.0195
			1568	0.0171
			1569	0.0017
			1570	0.0393
			1572	0.0314
			1571	0.0080
			2148	0.0022
			2147	0.0164
			2146	0.0006
			2117	0.0021
			2094	0.0024
			2093	0.0013
			2092	0.0117

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2088	0.0247
			2087	0.0202
			2086	0.0180
			2081	0.0207
			2078	0.0457
			2039	0.0467
			1878	0.0055
			2037	0.0194
13.	Tuio	DUMRI-110	12	0.6581
			9	0.1165
14.	Pipradih	DUMRI-104	64	0.0128
			62	0.0084
			63	0.0045
			65	0.0741
			66	0.0986
			96	0.0032
			95	0.0352
			97	0.0111
			94	0.0549
			98	0.0272
			89	0.0033
			99	0.0549
			100	0.0260
			101	0.0406
			102	0.0596
			103	0.0205
			104	0.0463
			106	0.0183
			105	0.0093
			731	0.3457
15.	Chegro	DUMRI-96	1267	0.0005
			517	0.0315
			1269	0.0137
			715	0.0163

761/2013-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1270	0.0427
			1300	0.0185
			1302	0.0187
			1303	0.0177
			1304	0.0086
			1305	0.0266
			1316	0.0136
			1317	0.0053
			1318	0.0009
			133	0.0031
			468	0.0328
			467	0.0138
			465	0.0228
			461	0.0163
			459	0.0059
			515	0.0408
			516	0.0558
			517	0.0149
			1267	0.0126
16.	Samda	DUMRI-98	1021	0.1456
17.	Khurjio	DUMRI-97	699	0.2743
			444	0.0782
			3	0.4130
			699	0.0210
18.	Asanbani	BAGODAR-87	25	0.1880
			25	1.2424
19.	Chaudharibandh	BAGODAR-86	1332	0.0153
			1333	0.0091
			1334	0.0079
			1379	0.4037
			2	0.9407
			1200	0.1493
			1199	0.0276
			1210	0.1030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1206	0.0080
			1208	0.0062
			1211	0.0948
			1212	0.0298
			1213	0.0336
			1282	0.0668
			1318	0.1598
			1319	0.4829
			1330	0.0320
			1335	0.0119
			1331	0.0695
			1332	0.0049
20.	Koradih	BAGODAR-85	348	0.0431
			346	0.1652
			342	0.4858
			506	0.0403
			371	0.0771
			372	0.0042
			373	0.0423
			375	0.0292
			376	0.0087
			388	0.0065
			389	0.0492
			390	0.0798
			393	0.1610
			394	0.1182
			395	0.0059
21.	Karma	BAGODAR-89	509	0.2334
			506	0.0175
			271	0.0020
			419	0.4315
22.	Bandh Kharo	BAGODAR-91	1879	0.0189
			1880	0.0257

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1881	0.0146
			1882	0.0773
			1887	0.0096
			1888	0.0120
			1889	0.0271
			2079	0.0347
			2080	0.0832
			2085	0.0785
			2086	0.0151
			2087	0.0037
			2088	0.0264
			2090	0.0092
			2091	0.0242
			2093	0.0172
			2092	0.0053
			2094	0.0146
			2095	0.0594
			2097	0.0396
			2100	0.0373
			220	0.0206
			219	0.0015
			218	0.0614
			217	0.0577
			216	0.0890
			210	0.0312
			214	0.0205
			213	0.0371
			211	0.0433
			199	0.0547
			193	0.0083
			192	0.0217
			191	0.0108
			189	0.0167
			188	0.0164

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			104	0.0541
			105	0.0143
			114	0.1010
			102	0.0885
			115	0.0136
			101	0.0048
			83	0.1272
			84	0.0040
			81	0.0085
			82	0.0088
			80	0.0457
			79	0.0122
			118	0.0089
23.	Chichanki	BAGODAR-54	120	0.0004
			165	0.0128
			325	0.0048
			40	0.0326
			45	0.0731
			77	0.0795
			93	0.0297
			94	0.0065
			95	0.0245
			100	0.0110
			99	0.0042
			101	0.0241
			103	0.0232
			105	0.0033
			106	0.0144
			111	0.0084
			112	0.0092
			114	0.0050
			115	0.0123
			116	0.0038

761/2013-8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			118	0.0214
24.	Pipradih	BAGODAR-50	1	0.1008
25.	Garea	BAGODAR-51	393	0.0685
			227	0.0122
			358	0.7326
			97	0.2813
			85	0.0017
			93	0.1251
26.	Barki Saria	BAGODAR-44	4952	0.7398
			4435	0.0278
			4438	0.0163
			4439	0.0298
			4655	0.0208
			4458	0.0386
			4710	0.0504
			4661	0.5089
			4964	0.7231
			1321	0.0454
			2206	0.0349
			2207	0.0054
			2208	0.0250
			2122	0.1441
			2124	0.1106
			2114	0.0416
			2116	0.3020
			1346	0.0195
			1344	0.0168
			1342	0.0040
			1329	0.0012
			1328	0.0178
			1327	0.1613
			1326	0.0582
			1325	0.0099
			1324	0.0073
			1323	0.0099
			1313	0.0015
			1321	0.2663

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	Saria Khurd	BAGODAR- 32	1663	0.0378
			1664	0.0610
			1665	0.0294
			1662	0.0065
			1666	0.0127
			1667	0.0165
			1668	0.0274
			1661	0.0039
			1669	0.0182
			1659	0.0011
			1670	0.0173
			1671	0.0332
			1672	0.0494
			1673	0.0177
			1674	0.0060
			1675	0.0087
			1676	0.0182
			1677	0.0177
			1678	0.0281
			1679	0.0291
			1681	0.0371
			1682	0.0258
			1683	0.0826
			1686	0.0111
			1687	0.0072
			1688	0.1946
			1712	0.0234
			1713	0.0394
			1711	0.0088
			1714	0.0808
			1741	0.0013
			1739	0.0016
			1742	0.0357
			1743	0.0072
			1744	0.0103
			1745	0.0161

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1746	0.0280
			1747	0.0548
			1756	0.0174
			1757	0.0280
			1758	0.0694
			1759	0.0166
			1816	0.0405
			2036	0.0553
			589	0.0004
			54	0.6665
			3477	0.0069
			53	0.0308
28.	Barwadih	BAGODAR-31	93	0.0437
			139	0.1079
			372	0.0501
			370	0.0543
			369	0.0160
			368	0.0294
			367	0.0230
			366	0.0193
			365	0.0225
			364	0.0133
			363	0.0670
			362	0.0281
			361	0.0373
			360	0.0293
			359	0.0184
			306	0.1177
			307	0.0081
			308	0.0048
			309	0.0124
			305	0.0934
			304	0.2507
			303	0.0102
			302	0.0059

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)